


COVID-19

बाहर घुमने के लिए दिशानिर्देश



- शारीरिक दूरी बनाये रखने का अभ्यास करें
- कम से कम 2 मीटर/6 फीट दूर रहें
- किसी चीज़ को स्पर्श ना करें



- आपको हर समय मास्क पहनना होगा कृपया मास्क पहनने के सुझाव शीट देखें



- अपनी मुलाकात से पहले या बाद में अपने हाथों को धोएं या सैनिटाइज़ करें